

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक – 13.01.2023

“थाना कांट पुलिस को मिली बड़ी सफलता,

अन्तर्जनपदीय चोर / टप्पेबाज गिरोह की महिला को किया गरिफ्तार, चोरी के जेवरात नगदी व आधार कार्ड आदि बरामद”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर श्री एस0 आनन्द के निर्देशन में अवैध शस्त्र निर्माण/अवैध शस्त्र रोकथाम हेतु व अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमित चौरसिया के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कांट श्री जयशंकर सिंह के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।

दिनांक 12/01/2023 की शाम 18.30 बजे वादिनी मुकदमा श्रीमती पूनम शर्मा व उनके भाई श्यामू पाठक के सहयोग से थाना कांट की पुलिस टीम द्वारा कस्बा कांट ब्लाक गेट के पास जलालाबाद रोड शाहजहाँपुर से शातिर अन्तर्जनपदीय चोर / टप्पेबाज गिरोह की महिला **भाग्यवती उर्फ बलदूरी उर्फ सरिता पत्नी सुरेन्द्र निवासी दरौडा थाना दरौडा जिला रेवाडी हरियाणा हाल पता ग्राम दियूरिया झाला तेंदुआ फार्म देवी का मकान थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर** को ब्लाक गेट के पास से गरिफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मौके से वादिनी का एक हैण्ड पर्श जिसमें 1850 रुपये नकद, एक जोड़ी पायल सफेद धातु, दो अंगूठी पीलीधातु, एक चैन पीलीधातु बरामद की गयी। अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गरिफ्तारी का दिनांक, समय व घटनास्थल –

दिनांक 12/01/2023, समय 18.30 बजे, घटना स्थल कस्बा कांट ब्लाक गेट के पास जलालाबाद रोड शाहजहाँपुर से

गरिफ्तार अभियुक्त का विवरण –

भाग्यवती उर्फ बलदूरी उर्फ सरिता पत्नी सुरेन्द्र निवासी दरौडा थाना दरौडा जिला रेवाडी हरियाणा हाल पता ग्राम दियूरिया झाला तेंदुआ फार्म देवी का मकान थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण –

एक हैण्ड पर्श जिसमें 1850 रुपये नकद, एक जोड़ी पायल चाँदी, दो सोने की अंगूठी, एक सोने की चैन की बरामद हुआ है

विवरण पूछताछ / अपराध का तरीका – पूछताछ से अभियुक्ता ने बताया कि उसके यहां से गिरोह में कई महिलायें जो कि ग्राम दियूरिया झाला तेंदुआ फार्म देवी का मकान थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर में आकर रुकती हैं इसके बाद 2-3 की संख्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व भीड़ भाड़ वाले स्टैण्डों पर खड़े होकर टारगेट चिन्हित करती हैं। यह लोग प्रायः उन अकेली महिलाओं को निशाना बनाती हैं जो कि देखने से अच्छी आर्थिक स्थिति में होती हैं और जेवर आदि पहने होती हैं या शादी व्याह से लौट रही महिलाओं को टारगेट के रूप में चिन्हित करती हैं। जैसे ही टारगेट की हुयी महिला सवारी में बैठती है तुरन्त ही यह दो-तीन की संख्या में उनके दाहिने बायें और सामने बैठकर मेल जोल बढ़ाती हैं। गिरोह की सभी सदस्य ठीक ठाक कपड़े में होते हैं इसलिए आम आदमी इनके टप्पेबाज/ चोर होने का शक नहीं करते हैं। यह लोग सवारियों से बातचीत और मेल जोड बढ़ाकर सहानुभूति हासिल कर लेते हैं फिर किसी बहाने फुटकर रुपये मांगती हैं और दूसरी सवारी को बातों में उलझाये रखती हैं और जैसे ही सवारी का ध्यान बंटता है वैसे ही यह लोग पर्स से जेवर व नगदी निकालकर अगले ठिकाने पर उतर कर चली जाती हैं।

उल्लेखनीय यह है कि जो महिला चोरी करती है वह माल अपनी दूसरी साथी को दे देती है ताकि तलाशी पर उसके पास कोई वस्तु बरामद न हो। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि इनका ठगी/चोरी का महिलाओं का अन्तर्राज्यीय गिरोह है जो विभिन्न राज्यों तथा उत्तर-प्रदेश के कई जिलों शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बरेली आदि जगहों पर चोरी/टप्पेबाजी की घटना करते हैं। इस गिरोह की गतिविधियां संचालित करने वाला व्यक्ति थाना पुवायां क्षेत्र का रहने वाला है जो कि चोरी/टप्पेबाजी की रकम में से 30-40 प्रतिशत हिस्सा लेता है। इनका नेटवर्क इतना तेज है कि पकड़े जाते ही इनका अधिवक्ता इनकी पैरवी में लग जाते हैं। गरिफ्तार महिला भाग्यवती उर्फ बलदूरी उर्फ सरिता उपरोक्त जनपद लखीमपुर व सीतापुर से इसी तरह की घटना में जेल जा चुकी है। इसके

अलावा यह महिलायें ज्वैलर्स की दुकानों पर भी टप्पेबाजी की घटनाये करती है। जिस दिन इनको सवारी के रूप में टारगेट नहीं मिलता है उस दिन ज्वैलर्स की दुकान पर ग्राहक बन कर जाती है और सामान खरीदने की बात कहकर ज्वैलर्स से ओर सामान दिखाने को कहती है। जैसे ही ज्वैलर्स दूसरा सामान लेने जाता है। इनमें से एक महिला जेवर चुरा कर भाग जाती है। ज्वैलर्स की दुकान पर जाते समय यह महिलायें अलग अलग जाती है ताकि दुकान वाला यह समझे कि यह दोनों एक साथ नहीं आयी है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0स0- 19/2023 धारा- 379/411 भादवि बनाम भाग्यवती उर्फ बलदूरी उर्फ सरिता उपरोक्त।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम -

1. वादिनी मुकदमा पूनम शर्मा पत्नी प्रदीप शर्मा निवासी ग्राम रहेरिया थाना सिंधौली शाह0
2. वादिनी का भाई श्यामू पाठक पुत्र राजकुमार
3. वादिनी का भाई ब्रजकिशोर पाठक पुत्र राजकुमार
4. उ0नि0 सन्तकुमार राठी थाना कांट जनपद शाहजहांपुर
5. म0का0 2362 सविता थाना कांट जनपद शाहजहांपुर
6. एच0एम0 1553 बाबू सिंह थाना कांट जनपद शाहजहांपुर